

931

824(NM)

2020
विज्ञान

केवल प्रश्नपत्र

समय : तीन घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक : 70

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

निर्देश :

- (i) यह प्रश्नपत्र तीन खण्डों "क", "ख" एवं "ग" में विभाजित है।
- (ii) प्रत्येक खण्ड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें चार उत्तर-विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए।
- (iii) प्रत्येक खण्ड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खण्ड नए पृष्ठ से प्रारम्भ किया जाए।
- (iv) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।



824(NM)

1

(W-4)

P.T.O.

(v) प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं।

(vi) आवश्यकतानुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए।

खण्ड - क

1. (क) अंतरिक्ष-यात्रियों को आकाश दिखाई देता है

- (i) काला
- (ii) नीला
- (iii) बैंगनी
- (iv) हरा

(ख) एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है

- 1 (i) 32 सेमी
 - (ii) 16 सेमी
 - (iii) 64 सेमी
 - (iv) 8 सेमी
- (ग) ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवान्तर में ग्राफ बनेगा

- 1 (i) एक सरल रेखा
- (ii) वृत्त
- (iii) टेढ़ी-मेढ़ी रेखा
- (iv) उपर्युक्त में से कोई नहीं

(घ) एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होता है

- (i) शून्य
- (ii) न्यूनतम
- (iii) अधिकतम
- (iv) सदैव स्थिर

824(NM)

2

(W-4)

2. (क) यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 हैं। इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों ? 2

(ख) एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिम्ब के आवर्धन का सूत्र लिखिये। क्या यह क्रणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है ? 2

(ग) एक किलोवाट-घंटा (1 kW-h) में कितने जूल होते हैं ? गणना कीजिए। 2

3. (क) एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए, यदि उसकी क्षमता -2.0 D है। यदि +1D की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाये तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ? 2 + 2

अथवा

15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिम्ब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4

(ख) $2\ \Omega$, $3\ \Omega$ तथा $6\ \Omega$ के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध

- (i) $4\ \Omega$
 - (ii) $1\ \Omega$ हो
- 2 + 2

अथवा

किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है ? यह किन कारकों पर निर्भर करता है ? 2 + 2


4. वैद्युत-चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं ? AC जनित्र तथा DC जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है, आरेख द्वारा समझाइए। 4 + 3

अथवा

दिये गये परिपथ में गणना कीजिए :

- (i) A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध
- (ii) धारा का मान
- (iii) A तथा C बिंदुओं के बीच विभवान्तर

3 + 2 + 2



खण्ड - ख

5. (क) निम्न में से कौन सा तत्त्व धात्विक है ? 1

- | | |
|----------|---------|
| (i) P | (ii) He |
| (iii) Li | (iv) S |

(ख) कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है ? 1

- | | |
|--------------|--------------------|
| (i) एथेन | (ii) मेथेन |
| (iii) एथिलीन | (iv) एथिल एल्कोहॉल |

(ग) धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है :

- | | |
|------------------------|--|
| (i) NaHCO_3 | (ii) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ |
| (iii) CaOCl_2 | (iv) NaOH |

6. (क) निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिये :

(i) प्रोपेनॉल – 2

(ii) पेन्टेनल

2

(ख) निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिये :

(i) जिंक + सिल्वर नाइट्रेट = जिंक नाइट्रेट + सिल्वर

(ii) मैग्नीशियम + हाइड्रोजन क्लोराइड = मैग्नीशियम

क्लोराइड + हाइड्रोजन

2

7. (क) प्रत्येक यौगिक के दो उपयोग लिखिये :

(i) कास्टिक सोडा

(ii) प्लास्टर ऑफ पेरिस

2

(ख) तत्त्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = 2, 8, 7 है, तो तत्त्व का परमाणु क्रमांक तथा आवर्त सारणी में वर्ग संख्या बताइये ।

2

(ग) क्या होता है जबकि (केवल रासायनिक समीकरण लिखिये) ?

(i) जिप्सम को 373 K पर गर्म किया जाता है ।

(ii) बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है । 1 + 1

8. क्या होता है जबकि (केवल रासायनिक समीकरण लिखिये) ?

(i) एथिल एल्कोहल को सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है । 1

(ii) एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है । 1

(iii) एसीटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है । 1

(iv) सोडियम कार्बोनेट एसीटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है । 1

(v) एथिल एल्कोहल एसीटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है । 1

(vi) एथेनॉल को क्षारीय पोटैशियम परमैग्नेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है । 1

(vii) एसीटिक अम्ल, सोडियम बाईकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है । 1

अथवा

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :

(कार्बनिक यौगिकों में निम्न को समझाइये ।)

(i) ऑक्सीकरण अभिक्रिया 2

(ii) योगात्मक अभिक्रिया 2

(iii) प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2

(iv) सजातीय श्रेणी 1

9. (क) प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है :	1	11. (क) स्थलीय पारितंत्र में पाये जाने वाले खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए।	4
(i) क्लोरोप्लास्ट (ii) राइबोसोम्स			
(iii) माइटोकॉण्ड्रिया (iv) लायसोसोम्स			
(ख) मानव चृक्क का कार्य होता है :	1		
(i) श्वसन (ii) प्रोटीन संश्लेषण			
(iii) हार्मोन संश्लेषण (iv) उत्सर्जन			
(ग) जीवाशम ऊर्जा का स्रोत है	1	(ख) ओज़ोन परत क्या होती है तथा यह प्रकृति में किस प्रकार अपक्षयित होती है ?	1 + 3
(i) जल विद्युत (ii) पवन ऊर्जा			
(iii) पेट्रोलियम (iv) सौर ऊर्जा			
(घ) केवल प्रोटीन के बने होते हैं	1		
(i) क्लोरोप्लास्ट (ii) लायसोसोम्स			
(iii) प्रायन्स (iv) जीन्स			
10. (क) पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए।	2	12. मेण्डल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।	7
(ख) मेण्डल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए।	1 + 1		
(ग) जीवों के जनन की विखण्डन तथा खण्डन विधि को उदाहरण सहित समझाइए।	1 + 1		



VERTEXAL

मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए।

3½ + 3½